



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 18 ] नई दिल्ली, अगस्त 24-अगस्त 30, 2008, शनिवार/भाद्र 2-भाद्र 8, 1930  
No. 18] NEW DELHI, AUGUST 24-AUGUST 30, 2008, SATURDAY/BHADRA 2-BHADRA 8, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II-खण्ड 4  
PART II-Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2008

का.नि.आ. 72.-केन्द्रीय सरकार, रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित करती है कि महाराष्ट्र राज्य में रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला, बोधली नागपुर के पास की भूमि जो आदेश में उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि है, के उपयोग और उपभोग पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों को अधिरोपित करना आवश्यक हो गया है कि उक्त भूमि को भवनों और अन्य बाधाओं से मुक्त रखा जाए।

2. उक्त भूमि की रेखाचित्र योजना का, कलक्टर, नागपुर, महाराष्ट्र के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला, बोधली नागपुर की सीमा दीवाल की बाहरी मुंडेर के शिखर से एक सौ मीटर की दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्र की सभी भूमि समाविष्ट है।

[फा. सं. डीसीडब्ल्यूई/07/34079/डब्ल्यूडीए/बीटीएल I]

एस. के. देब, अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 25th July, 2008

**S.R.O. 72.**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clause (c) of Section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule hereto annexed, being land lying in the vicinity of Defence Research Development Laboratory, Bothli Nagpur in the state of Maharashtra, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the Collector, Nagpur, Maharashtra.

## SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within the distance of one hundred meters from the crest of the outer parapet of the boundary wall of Defence Research Development Laboratory, Bothli Nagpur, in the state of Maharashtra.

[F.No. DCWE/07/34079/WDA/BTL I]

S. K. DEB, Under Secy.

( वित्त प्रभाग )

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2008

**का.नि.आ. 73.**—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, तारीख 29 दिसम्बर, 2001 में संख्यांक का.नि.आ. 241 द्वारा प्रकाशित रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, स्तंभ (1) में आने वाले क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“चंडीगढ़, अंबाला, भटिंडा, जालंधर, सुबाथु, दिल्ली छावनी और शिमला स्थित रक्षा लेखा विभाग के अथवा उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए सभी स्थान”।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

**टिप्पण.**— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, में संख्यांक का.नि.आ. 241, तारीख 29 दिसम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. एफ. 12(8)/सी/2001]

रमेश कुमार, निदेशक (वित्त/समन्वय)

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 7th August, 2008

**S.R.O. 73.**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupation) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Ministry of Defence (Finance Division) vide SRO 241, published in the Gazette of India, Part II, Section 4 dated the 29th December, 2001.

In the said notification in the Table, against serial number 2, occurring in column (1), for the entries in column (3), the following shall be substituted, namely :—

“All premises belonging to or taken on lease by Defence Accounts Department at Chandigarh, Ambala, Bhatinda, Jalandhar, Subathu, Delhi Cantonment and Shimla”.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Note :—** The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 4, vide number G.S.R. 241 dated 29th December, 2001.

[F.No. F. 12(8)/C/2001]

RAMESH KUMAR, Director (Finance/Coord)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2008

का.नि.आ. 74.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा नियम, (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) के रक्षा लेखा विभाग के उपबन्ध में उल्लिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना पहले जारी की गई दिनांक 22 जुलाई, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में जारी की जाती है।

[सं. ई-11017/7/2000-हिन्दी]

राम सिंह, उप वित्तीय सलाहकार (पें./रा.भा.)

#### उपबन्ध

#### अधिसूचित किए जाने वाले कार्यालयों की सूची

##### संगठन : रक्षा लेखा नियंत्रक, गुवाहाटी

1. सहायक लेखा अधिकारी, गैरीजन इंजीनियर, नारंगी
2. सहायक लेखा अधिकारी, गैरीजन इंजीनियर, 583 ई.पी.
3. स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी, (सेना), गुवाहाटी
4. सहायक लेखा अधिकारी, रक्षा संपदा कार्यालय, गुवाहाटी
5. सहायक लेखा अधिकारी, गैरीजन इंजीनियर, मिसामारी
6. सहायक लेखा अधिकारी, सहायक गैरीजन इंजीनियर, (स्व.), लेखापानी
7. सहायक लेखा अधिकारी, गैरीजन इंजीनियर, चाबुआ
8. सहायक लेखा अधिकारी, बी.एस.ओ., जोरहाट
9. सहायक लेखा अधिकारी, सहायक गैरीजन इंजीनियर, (स्व.) कुम्भिरग्राम
10. सहायक लेखा अधिकारी, रक्षा संपदा कार्यालय, तेजपुर

New Delhi, the 30th July, 2008

S.R.O. 74.— In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use of official purposes of the Union) Rules 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Defence Accounts Department of the Ministry of Defence (Finance Division) mentioned in the annexure staff whereof have acquired working knowledge of Hindi.

2. This notification issues in continuation of the notification even no. dated 22nd July, 2003 issued earlier.

[No. E-11017/7/2000-Hindi]

RAM SINGH, Dy. Financial Adviser (P/OL)

#### ANNEXURE

##### List of the offices to be notified

##### Organisation : Controller of Defence Accounts, Guwahati

1. Assistant Accounts Officer, GE, Narangi
2. Assistant Accounts Officer, GE, 583 E.P.
3. Local Audit Officer (Army), Guwahati
4. Assistant Accounts Officer, DEO, Guwahati
5. Assistant Accounts Officer, AGE (I), Lekhapani
6. Assistant Accounts Officer, GE, Narangi
7. Assistant Accounts Officer, GE, Chabua
8. Assistant Accounts Officer, BSO, Jorhat
9. Assistant Accounts Officer, AGE (I), Kumbhirgram
10. Assistant Accounts Officer, DEO, Tejpur